Registered & Corporate Office: Plot No. B-26, Institutional Area, Sector - 32, Gurugram - 122001, Haryana (INDIA) Phone: +91 124 4343000, Fax: +91 124 2580016 E: info@omaxauto.com, W: www.omaxauto.com

CIN:L30103HR1983PLC028142



OMAX AUTOS LIMITED

OMAX/STEX/2021-22/41

Date: 9th December, 2021

The Manager — Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plazal,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai — 400051

The Manager – Listing
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai — 400001

NSE Code: OMAXAUTO

BSE Code: 520021

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of Listing Regulations, please find enclosed newspaper advertisement confirming dispatch of notice of 38th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 28th December, 2021 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to the shareholders, in accordance with applicable provisions of the Listing Regulations and the Companies Act, 2013 read with Rules made there under, inter-alia, informing them about 38th Annual General Meeting of the Company and details relating to evoting facility & book closure. The notice was published in the following newspapers on 8th December, 2021.

This is for your information and record, please.

Kindly bring it to the notice of all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Omax Autos Limited

Hari Gopal Agrawal
Authorised Signatory



प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, स्टार खजर २, ९वीं मंजिल, सी-४, जी-बर्लोक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू.), पुंबई-४०० ०५१. ई-मेल: headofilos.l@bankofindia.co.

हार्डदेयर सिक्यूबिटी मॉड्यूल (एवएसएम) की आपूर्ति, संस्थापन, एकीकरण, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

शीर्षांकित आर.एफ.पी. बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट <u>www.bankofindia.co.in</u> के अंतर्गत ''टेन्डर'' अनुभाग में उपलब्ध है। बाद में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उन्हें बैंक की वेबसाइर पर ही अपलोड किया जाएगा

बिड जमा करने की अंतिम तिथि 30/12/2021 है।

AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORTION

Re - E -Tender Notice No. 2/427 for 2021-22

Corporation Ahmednagar invites Re - E - tender for the work of Ahmednagar Sewerage Scheme (AMRUT) Providing, erecting, commissioning & giving satisfactory test & trial of Sewage Submersible pumping machinery and allied electrical and mechanical works for Pumping station at Fulsundar Mala at Tal & Dist.Ahmednagar in the state of Maharashtra, Valued at Rs 4,03,12,801/-Please visit following websites -

Www.maharashtra.etenders.in/ www.amc.gov.in / www.mahatenders.gov.in for detailed information.

> Commissioner Ahmednagar Municipal Corporation

ञ्जरा बैंक Canara Bank 🕸

नम्बानस्थर जारी करते हैं:

केनरा बैंक

परिशिष्ट-2

मांग सूचना [धारा 13(2) कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता]

दिनांक : 24/11/202 संदर्भ : खाता सं. 2807261050025, 2807746000001, 2807747000002, 2807747000003

) मैसर्स इंडियन केवल इंडस्ट्रीज (पार्टनरशिप कर्म) इसके भागीदार्थे द्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधानितः श्री बाबू राम भाटी निवासी : मशुरापुर, ओमिक्रोन ा, ग्रेटर नोएसा

ब.म. 203207, श्री अभिनेक भार्टी, निवासी मधुरापुर, ओमिकोन 1 ग्रेटर नीएडा उ.प. 203207

श्री बाबू सम भाटी निवासी मथुरापुर, ओमिक्रोन 1 ग्रेटर नोएडा त.प्र. 203207

श्री क्षणिजेक भादी निवासी मथुरापुर, ओमिक्रोन १ ग्रेटर नोएसा उ.प्र. 203207

श्रीमती माबा भाटी निवासी मथुरापुर, ओमिक्रोन १ ग्रेटर नोएडा उ.प्र. 203207

विषय : विनीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना अंधोहस्ताक्षरी केनरा शैंक, प्रेटर नोएडा (2807) शाखा (बाद में "प्रतिमृत लेनदार" के रूप में संदर्भित) वे अधिकृत प्रश्चिकारी होने के नाते, वितीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमीण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एतद्वारा आपको यह सूचन

के श्री बाबु राम भाटी निवासी मधुरापुर, ओमिक्रोन १ ग्रेटर नोएटा उ.प्र. 203207 (इसके बाद 'उधारकर्ता h रूप में संदर्भित) ने यहां अनुसूची र में बताई गई क्रोडिट सुविधा/सुविधाओं का लाग उठाया है और प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में प्रतिभृति समझौता किया है। उक्त वित्तीय सहायता का लाभ उदाते समय, आपने स्पन्न कर से उपरोक्त करारों के नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण राशिएपणि को चुकाने का ययन दिया है। कि श्री बाबू राम भादी नियासी मथुरापुर, ओमिक्रीन १ येटर नोएडा उ.प्र. 203207 (इसके बाद में 'गारंटर' के

रूप में संदर्भित) ने रुमस्त धन की मांग पर भुगतान और प्रतिभृत लेनदार को देव वा किए गए सभी दायित्व और देनदारियों का उधारकर्ता द्वारा रुपये 17711419.17- (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख म्यारह हजार चा सौ उन्नीस एवं दस पैसे मात्र) तथा ब्याज की ऋण सविधाओं के निस्तारण की गारंटी दी है। क्षाप (अनुसूची बी में डिल्लिखित व्यक्ति) भी प्रतिभूत अस्तियों के विरुद्ध समझौतों में शामिल हैं, जिनक

वेवरण यहाँ अनुसूची बी में दिया गया है। क्षिप, 30.07.2021 से कथित बित्तीय सहायता/ऋण धुविधाओं का संचालन एवं व्यवहार अनियमित हो गय और एनपीए हो गया। प्रतिभृत आस्तियों के अनुरक्षित खाते की पुस्तकों से पता चलता है कि अब तक प्रतिभूत तेनदार के प्रति उधारकर्ता की देनदारी 24.11.2021 तक रू. 17711419.1/- (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख यारह हजार चार सौ उन्नीस एवं दस पैसे मात्र) है, जिसका विवस्ण भावी ब्याज दर के साथ नीचे अनुसूर्य सी में दिया गया है। यह आगे कहा गया है कि उधारकर्ता/गारंटर दिए गए समय के भीतर प्रतिभूत लेनदार के बकाया राशि का भुगतान करने में उपरोक्त समझौते की शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं, और बकाया राशि के निपटान में डालमटोल कर रहे हैं। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋग सुविधा का संचालन और व्यवहार उप ह गया है तथा मूल बहुग/किस्त और उस पर स्याज की अदायगी में किए गए चुक के परिणामस्वरूप, प्रतिभूत तेनदार भारतीय रिजर्व बँक द्वारा जारी आहित वर्गीकरण से संबंधित निदेशां/दिशानिदेशों के अनुसार 30-07 2021 ऋण को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बाध्य हो गया।

इस नीटिस के माध्यम से प्रतिभूत लेगदार आपका ध्यान आकर्षित करता है कि वधारकर्ता ने उक्त बकाया/बकाया देगदारियों को चुकाने में आनाकानी की हैं और बिफल रहा है और इसलिए एनद्वारा अधिनियम की घारा 13(2) के तहत यह नोटिस जारी करके आपसे मांग करता है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 50 दिनों के भीतर प्रतिभृत लेनदार को अनुसूची ही में बताए अनुसार उधारकर्ता की देनदारियों को पूरी तरह से निस्तारित करें। इसके अलावा, आपके ध्यान में यह लाया जाता है कि आप 11.15, 10.30, 10.30, 10.20 तथा 2% की दर से भावी त्र्याज का भगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं, जिसमें प्रतिभत लेनदार द्वारा इसकी काया राशि की वसूली में की गई कार्यवाही के संबंध में निहित सभी लागत, शुल्क, खर्च और आकस्मित्र

खर्च शामिल हैं। कपया इस तथ्य पर ध्यान दें कि यदि आप प्रतिभत होनदार को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नीदिर b संदर्भ में उपरोक्त रु. 17711419.17- (रुपये एक करोड़ सतहतर लाख स्यारह हजार चार सौ उन्नीस एवं रू पैसे मात्र) की राशि को भावी लागत एवं प्रभारों तथा आकस्मिक व्ययों और इस सूचना की शर्तों के सन्दर्भ ं उपरोक्त के अनुसार चुकाने में विफल रहते हैं, तो प्रतिभूत लेनदार धारा 13 की उप-धारा (4) (ए) और (बी) के तहत बिस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसका उद्धरण इस मुद्दे की गंभीरता को

यक्त करने के लिए यहां नीचे दिया गया है: 3(4) यदि ऋणी/गारंटर ठप-भारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर देयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने मे फल रहता है, तो प्रतिभुत लेनदार अपने प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक य

उससे अधिक उपायों का सहारा ले सकता है, अर्थात्;

(क) प्रतिभृत संपत्ति की वसूली के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार संदित उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूत संपत्ति का कब्जा लेना; ख) प्रतिभूत संपत्ति की वसुली के लिए पड़े, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तीतरण के अधिकार सहित

रधारकर्ता के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना:

इशर्ते कि पट्टे. समनदेशन या बिकी के माध्यम से इस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग केवल वहीं किया जाएंग जहां उधारकर्ता के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में रखा गया हो;

क्शर्ते यह भी कि जहां पूरे व्यवसाय या व्यवसाय के हिस्से का प्रबंधन अलग किया जा सकता है, प्रतिभूत लेनद डधारकर्ता के ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगा जो ऋण के लिए प्रतिभूति से संबंधित हैं; तथा कथित अधिनियम के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहता।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धार के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13(13) के आनुसार ऋणी/मार्रटर प्रतिभूत लेनदार की लिखित रुडमित प्राप्त किए बिना बिकी, पट्टे या अन्यया अनुसूची की में वर्णित उक्त सुरक्षित संपत्ति की इस्तांतरित नहीं करेगा। यह आगे आपके ध्यान में लाया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाना/बाध्यता का कोई भी उल्लंघन, जैस कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, एक अपराध है और यदि किसी भी कारण से, प्रतिभृत रुंपि को व्यामार के सामान्य पाड्यक्रम में रोचा या पड़े पर दिया जाता है, तो बिक्री से प्राप्त आर या पाड आय की प्रतिभत लेनदार के पास जमा किया जाएगा। इस संबंध में आपको ऐसी वसली/आय का उचित लेख

. मांग का यह नोटिस पूर्वाग्रह के बिना है और किसी भी सन्य अधिकारों या उपायों की छूट के रूप में नहीं मान तपुगा, जो सुरक्षित रोनदार के पास आपके द्वारा देय और देय राशि के लिए आगे की मांग सहित हो सकता है यह अभिनियम और या लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभृत लेनदार के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों गर प्रतिकृत प्रभाव से रहित है।

कृपया इस नोटिस के तहत मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रिय घटनाओं से बचें। गैर-अनुपालन वे मामले में, आपको सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी टहराते हुए, आगे आवश्यक कार्रवाई क

सद्याग लिया जाएगा।

अनसची-ए [कर्जदार द्वारा ग्रहण की गयी साख सुविधा/ओ का विवरण]

क्र.सं.	ऋण सं.	ऋणा/सीमा की !	प्रकृति	स्वीकृति की तिथि	स्रशि	
1 2. 3. 4.	2807261050025 2807746000001 2807747000002 2807747000003	ओपन कैश क्रेडिट कार्यशील पूंजी सावि वित्तपोषित व्याज साव वित्तपोषित व्याज साव	धि ऋण	23.06.2017 30.09.2020 30.09.2020 30.09.2020	4500000/- 10000000/- 1088000/- 536000/-	
	***			कुल	16124000/-	
प्रतिभ	त आस्तियों३ का विवर	अनुसूची ए। 1	–बी			
1, प्ल	ग्रेटर नोएडा का सम्पूर्ण टि नंबर 239, दक्षिण पूर	टर, ब्लॉक ईं, सेक्टर देल्टा भाग, सीमाएं । उतर पूर्वः वें: फ्लॉट नंबर 233, उत्तर ए पश्चिम: फ्लॉट नंबर 237	मधुरापुर, सं 1, ग्रेटर नो	क्टर ओमिक्रोन 1, ब्लॉ		
58	 प्लॉट नंबर 7, व्लॉक सी, सेक्टर ऑमिक्रोन 1, क्षेत्र \$80 वर्ग मीटर, फेटर नोरटा, गीना- बुद्ध नगर, सीमार्थ मधुरापुर, सेक्टर ऑमिक्रोन 1, व्लॉक ई, : उत्तर पूर्व : 35 मी, दक्षिण पूर्व : 35 मी, पूर्व उत्तर: 16.38 मी, पश्चिम तक्षिण: 16.58 मी 				वार सिंह, निवास के ई, सैक्टर डेस्स	
मी	टर, आवासीय कॉलोनी, शरएचओ- 01) ग्रेटर नो	नं 118 माप क्षेत्र 162 वर्गं चलॉक बी, सेक्टर 36 रहा, जिला: गीतमबुद्ध नगर नंबर 119, दक्षिण पश्चिम:	मधुरापुर, सं 1, ग्रेटर मी	क्टर ओमिक्रोन 1, क्लॉ		

[31,07,2021 तक देयताओं का विकाण 1

च्याच सहित हेग

1204573.1/-

577875/

ब्बाज की दर

11.15

10.30

10.20

7711419.1

अधिकृत प्रां

ऋग/सीमा की प्रकृति

ओपन कैश केहिट

कार्यशील मुंजी सावधि तहा

. सत्तपोषित स्थाज सावधि ऋण

वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋष

ऋण संख्य

2807261050025

2807746000001

2807747000002

2807747000003

05.12.2021

स्थान : नोएडा

कब्जा सूचना

जबकि जना स्मॉल **फाइनेंस बँक लिमिटेड** (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम से झात) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते विचिय परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता(औं)/सह-उधारकर्ता(औं) को मांग सूचनाएँ जारी कर उधारकर्ताओं को उनके नामों के विरुद्ध देय राशि, लागू आक्रिमक खर्बों के कुए में भृविष्य के ब्याज़ के साथ, लागत, भुगतान और/या वसूली की दिनांक तक किए गए शल्क आदि के साथ के साथ उक्त सचना की प्राप्ती से 60 दिनों के भीतर चकाने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) सूचना दिनांक/बकाया देय (रूपये में) तक	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
	30218850003861	1) मेसर्स शमशाद टंकी वर्कस अपने मालिक श्री शमशाद ,2) श्री शमशाव,3) श्रीमती मानजूम (गारंटर) द्वारा प्रतिनिधित्व	05.07.2021 /क. 2,80,424.50/— (रुपये दी लाख अस्सी हजार चार सी चीं तीस और पचास पैसा मात्र) दिनांक 08.06,2021 तक	

<u>त्थाभूत भारसभाक्या का ाववरण :</u> आवासाय प्लाट स.३२१ का माग, खसरा स ६१, मापक क्षेत्र २५ वर्ग गज, सुधीर एनक्लेव, ग्राम **ह**किकत पुर/खुद समा लोनी,तहसील और जिल्लागाजियाबाद, मानजून पुत्री मो. सलीम **सीमांकन प्रकार: पूर्व**: अन्य की भूमि, प**श्चिम:** 10 फुँट चौड़ा रास्ता , **उत्तर:** अन्य की भूमि, **दक्षिण:** अन्य की भूमि

23.08.2021 /W. 17,14,265.00/- मेसर्स मुस्ताक केयरी अपने मालिक श्री मुस्ताक (रुपये सत्रह लाख चौदह हजार दी 30218644984866 श्री मुस्ताक,
 श्री परवेज (गारंटर) द्वारा प्रतिनिधित्व दोपहर 12 : 45 वर्ज

<u>ख्यामूत परिसंपितयों का विवरण</u>ः प्लॉट सं. 126, खसरा सं.210 भीन, ब्लॉक सी,खुराना एन्क्लेब,ग्राम पावी सङ्कपुर, लोनी और जेला-गाजियाबाद,मापक क्षेत्र 200 वर्ग गज श्री पुसताक पुत्र श्री एहसान अली द्वारा स्वामित्व। सीमांकन प्रकार: पूर्व: श्रीमती मेहरूनिशा का प्लॉट, पश्चिम 16 फुट बौडी सङ्क, **उत्तर**: 20 फुट बौडी सङ्क, **दक्षिण**ः खाली प्लॉट।

1) मेसर्स घरमयीर अपने मालिक भी घरमवीर, 2) श्री घरमवीर (गारंटर), 3) श्रीमती शांति वेवी (गारंटर) द्वारा प्रतिनिधित्व 14,08,2021 /5, 6,92,387,00/-R. 02.12.2021 (रुपये छड लाख बानवे हजार तीनसौ सत्तासी मात्र) समय : अपराह्म02 : 25 बजे और प्रतिकात्मक कब्ज 30218850002730 विनांक 08.08.2021 तक <u>मत्याभूत परिसंपत्तियों का विकरण :</u> एक आवासीय प्लॉट सं. 280/2, मापक 60 वर्गगज, रिथत राहुल गार्डन कॉलोनी, व्राम बहता हाजीपुर, परगना परगन लोनी, तहसील और जिला-गाजियाबाद, श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री भगवान प्रसाद गुप्ता द्वारा स्वामित्व । **सीमांकन प्रकार : पूर्व** : प्लॉट सं.280/1 **परिचम** : 20 फुट चौड़ा रास्ता , **उत्तर :** प्लॉट सं.280/3, **दक्षिण** : 25 फुट चौड़ा रास्ता ।

जबकि, उन्मर उन्लेखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंघककर्ता, देय रात्र बुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा विशेष रूप उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंच बँक लिम्टिड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के साथ पंदित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त दिनांकों पर उपर्युक्त यहां विधित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूपसे उत्पर उल्लेखित उधारकर्ताओं/ सह—उधारकर्ताओं/ गाएंटरों/बंधककर्ताओं और आम जनता को सामान्य रूप से एतद् द्वारा उपर्युक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्ति से कोई भी व्ययहार करने से आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार जना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड के प्रमार के अधीन होगा।

स्थान : गाजियाबाद हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक:06.12.2021 प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

शाखा कार्यालय: 16/12, वूसरा तल, अल्यू, ई. ए., आर्या समाज रोड़, करोल बाग, विल्ली—110005

५२० अधुराषा व्यवसायक वर्षण <u>पंजीकृत कार्यालय :</u> द फेक्स्बे, मृतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड़, ईजीएल बिजनेस पार्क वे पास, बल्लाघाटा, बेंग्लीर–560071.

(परिशिष्ट IV) [नियम-8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) एडलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सी एस टी रोड, कलीना, मुंबई-400098 शाखा कार्यालयः ई-3, दूसरी मंजिल, दिल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, झंडेवालां, नई दिल्ली-110055

जबकि नीचे वर्णित समृद्देशक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनःनिर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित घारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि चुकाने के लिए ऋणी (ऋणियों) के सूचनार्थ निम्नानुसार मांग सूचना पत्र जारी

किया था। इसके बाद नीचे वर्णित समनुदेशक ने एडलवाइस एसेट रिकंट्ट्रक्शन कंगनी लिमिटेड को भी यहाँ नीचे उद्धिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में (इसके पश्चात 'ईएआरसी' के रूप में संवर्षित) अपनी निजी/कार्यकाता मां वित्तीय परिसंपत्तियों को सुप्त किया है। सरफेसी अधिनयम, 2002 की घाप 5 के अधीन समनुदेशन अनुवंधों के अनुपालन में, ईएआरसी ने समनुदेशक के दिखाए रास्तों पर कदम रखा है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में अंतर्निहित प्रतिभृत हितों, गांदटी, बंधकों के साथ समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार एवं हितों को ऋणी द्वारा लिए गए वित्तीय सहयोग के संबंध में ईपआरसी को अधिकार सींपा है एवं ईपआरसी प्रतिभृत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का पालन करता है। ऋणी द्वारा वित्त संपत्ति के सामने उद्धिखत अधीकार साथ से पर्ति के साथ समन्ति के सामने उद्धिखत अस्वाधार पहलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में आधीकार सींपा है के प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रतिभृत परिसंपत्तियों को खुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की और ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

समनुदेशक का	ट्रस्ट का	ऋग खाता	ऋणी का नाम एवं	मांग सूचना पत्र	कळने की	करूजे की
नाम	नाम	संख्या	सह-ऋणी का नाम	की राशि एवं तिथि	तिथि	वस्तु—स्थिति
दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड ("डीएचएफएल"/ "समपुदेशक")	"ईएआरसी ट्रस्ट एससी -371	1263047 [282- 00000126]	श्री सूर्य प्रकाश तिवारी (ऋणी) /श्रीमती दीपा ("सह—ऋणी")	रु.56,06,135.96/- (रुप्ये छप्पन लाख छह हजार एक सौ पैतीस एवं पैसे छियानचे मात्र) 07 जून, 2021	04.12.2021	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः गिरवी रखी संपत्ति के सभी एवं उसके अंश, संपत्ति का संपूर्ण अपर ग्राउंड, बगैर टेरेस अधिकार के, सं. 305-ए, गली नं. 4; परिमाप 100 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 600/92 में, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में स्थित, चार बेडरूम, अटैच्ड बायरूम, एक ड्रॉइंग /डाइनिंग एवं किचन से संलग्न के साथ फिटिंग, फिक्सचर्स, पृथक बिजली एवं पानी कनेक्शन, ओवरहेड वाटर टैंक, आदि एवं नीचे की भूमि के सभी समानुपातिक, अविभाज्य, अभाज्य स्वामित्व अधिकार के साथ तथा इसके सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार एवं हित, यहाँ प्रदत्त आराम, विशेष अधिकार एवं इसके अनुलग्रक, संयोजन, इस पर खड़ी संरचना और आम प्रवेश द्वारों, मार्ग, सीडियों और अन्य आम सुविधाओं एवं सुख-साधन के साथ (इसके पश्चात "संपत्ति के उक्त फ्लोर" के रूप में परिचित) सेल डीड–2810 दिनांक 12.04.2016 के माध्यम से, सब जिस्ट्रार कार्यालय का स्थान-दिल्ली, संपत्ति निम्नानुसार घिरा हुआ हैः पूर्वः उपलब्ध नहीं, पश्चिमः उपलब्ध नहीं, उत्तर : उपलब्ध नहीं, दक्षिण पलब्ध नहीं।

दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड ("डीएचएफएल"/ "समनुदेशक")	ईएआसी ट्रस्ट एससी -371	1177465 [770- 0001632]	श्री संदीप गुला (ऋणी) /श्रीमती रीतू गुला ("सह-ऋणी")	रु.13,73,203.99/— (रुपये तेम्ह लाख तिहत्तर हजार दो सौ तीन एवं पैसे निन्यानवे मात्र) 07 जून, 2021	03.12.2021	प्रतीकात्मक क ठजा
						

संपत्ति का विवरणः गिरवी रखी संपत्ति के सभी एवं उसके अंश/आवासीय फ्लैट नं. 336, तीसरी मंजिल जिसका सुपर एरिया है 33.44 वर्ग मी. एवं आच्छादित एरिया है 27.87 वर्गमीटर, संलग्न मैप के अनुसार । गंगोत्री अपार्टमेंट आवासीय कॉलोनी कौशम्बी में स्थित, गाजियाबाद तहसील एवं जिला गाजियाबाद उ. प्र.–201010 (इसके पश्चात उक्त संपत्ति के नाम से परिचित, सेल डीड दिनांक 07.09.2015 के माध्य-से, सब रजिस्ट्रार कार्यालय का स्थान–गाजियाबाद, संपत्ति निम्नानुसार चिरा हुआ है: पूर्वः उपलब्ध नहीं, पश्चिमः उपलब्ध नहीं, उत्तर : उपलब्ध नहीं, दक्षिण : उपलब्ध नहीं।

विशेषरूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्तियों के साथ कोई सौदा न करें एवं उक संपत्तियों के साथ किसी प्रकार कूत सौदा यहाँ वर्णित राशि एवं इस पर ब्याज के साथ एडलवाइस एसेट रिकेस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया हुआ होगा स्थान : विल्ली तिथि: 08.12.2021 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रवशन कॅपनी लिमिटेड

Edelweiss ASSET

SHRIRAM स्चना

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HOUSING FINANCE पंजीकृत कार्यालय :कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001. शाखा कार्यालय : 245-246, दूसरी मंजिल, ओमकरन टॉवर, हनुमान नगर-डी, अमरपार्ल मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021, वेबसाइट :www.shriramhousing.in

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजुद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मुलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चुक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित थारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भगतान की तिथि तक आकस्मिक ब्ययों. लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर सुचनाएँ भेजी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से इसी के विषय में सुचित किया

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रॉ)/सह-कर्जदार(रॉ) का नाम	बकाया राशि	ऋण राशि	प्रतिभृत अस्तियों का सम्पत्ति पता
श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह (मृत ऋणी के जरिए कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) श्रीमती रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार सिंह पताः प्लॉट / मकान नंबर 1150, कोइला अस्पताल, जती जी की बगीची, लक्ष्मी नारायणपुरी मंडी खटीकन, डाकघर त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, राजस्थान 302002। इसके अलावाः प्लॉट/हाउस नंबर 18, वैष्णव नगर, नायला रोड, जय सिंह पुरा खोर, जयपुर, राजस्थान 302027। एनपीए तिथि - 06-07-2021	तथा यहा उाल्लाखत भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागतों आदि सहित।	देवी के नाम से ऋण राशि रु. 7,03,861/-	प्लॉट/मकान नं. 18, वैष्णव नगर, नायला रोड, जय सिंह पुरा खोर, जयपुर, राजस्थान पर रिथत अचल सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, श्रीमती रेखा देवी के नाम पर, माप क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम :30 फीट, उत्तर से दक्षिण : 15 फीट (कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट या 50 वर्ग गज, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 24, पश्चिम : सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर : प्लॉट नं. 17, दक्षिण : प्लॉट नं. 19.

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमित के बिना इस सचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभृत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : जयपुर ह./ अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 08.12.2021

ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड

जिक्ति एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. बी-26, इंस्टीट्यूअनल एरि

सीआइंएन : L30103HR1983PLC026142. वेबसाइट : www.omaxauto.com ई-मेल : investors@omaxauto.com, दुरभाष : +91-124434300 फैक्स : -91-124-2580018 ३६वीं वार्षिक आम बैठक,

बुक क्लोजर तथा ई-वोटिंग की सूचना

वह हमारे पूर्व के संचार दिनांक । दिसम्बर, 2021 की निरन्तरता में है जिसके हारा कंपनी अधिनियम, 2013 'अधिनियम') के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा कॉरपेरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी सामा-परिपन्न सं. 14/2020; 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020. दिनांक 5 मई. 2020 तथा दिनांक 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित सेवी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन अपेक्षापं) विनियम, 2015 ["सेबी (पलओडीआर) विनियम''] के अनुपालन में एलीएम की सूचना में निर्धिरित व्यवसायों के लेन-देन के लिए किशी काँमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थि के बिना कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसि 'वीली')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनीं ('ओएवीएम') द्वारा आयोजित करनी निर्धारित की है।

31 मार्च, 2021 को समात वितीय वर्ष के लिए कंपनी की 38 वी एजीएम की सूचना और वर्षिक रिपोर्ट एमसी . और सेची सर्व्हालर के अनुसार उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्टार और शेयर ट्रांकफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत है, के पास भेजने का कार्य ई-मेल हारा दिसंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है और यह कंपनों की वेबसाइट www.omaxanto.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.hseindia.com तथा www.nseindia.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेर लिमिटेड (''एलआईआईपीएल'') की वेबसाइट पर instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं। । कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानी समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान हारा आरी सचिवीय मानक –2 और एमसीए परिपत्र के अनुपालन में, सदस्यों की 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों प

ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 36वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के सा

एलआईआईपीएल द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-बंटिंग और ई-बंटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीट डालने की समिधा प्रदान की जा रही है। रेमोट ई-बोटिंग शनिवार, 25 दिसंबर, 2021 (सुबह 09:00 बजे) भामा स. पर शुरू होगी और सोमवार, 27 दिसंबर 2021 (शाम 05:00) भा.मा.स. को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाव सकते हैं। इसके बाद, रिमोट ई-चंटिंग मॉद्यूल को मतदान के लिए एल आईआईपीएल हाए निकिय कर दि। जाएगा। उक्त तिथि और समय के याद रिमोट ई-चंटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-पोटिंग द्वारा अपना पोट डाला है, ये भी वीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम मे शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-बोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना बोट दोबारा डालन

के हकदार नहीं होंगे। एक बार सदस्यों हारा किसी संकल्प पर मतदान करने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमीट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 38वं

एजीएम के नीटिस में दिए गए हैं। कंपनी के निदेशक मंहल ने हाँ. एस. चंद्रशेखरन, सीनियर पार्टनर या उनकी अनुपरिधति में ही रूपेश अग्रवाल

मैनेजिंग पार्टनर या उनकी अनुपस्थिति में श्री शशिकांत तिवारी, मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्श के पार्टनर, कंपन सचिवों को ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है।

सदस्यों के बोटिंग अधिकार मंगलवार, 21 दिसंबर, 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') के अनुसार कंपनी की चुकत इक्किटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्किटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑक टिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी हारा अनरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज केवल वे हं एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा जो सदस्य कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस मोटिस की केवल सुचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जो 38वीं प्रजीपम की सचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषप की तारीक्ष के बाद शेयरों का अधिग्रहण कर

है और कंपनी का सदस्य यन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, 38वीं एजीएम की सूचन में दिए गए निर्देशों का पालन करके या enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही एलआईआईपीएल के साथ ई-वीटिंग के लिए पंजीक है, तो वह अपना बोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईटी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। जात करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

कपया कम्पनी के रिकस्टार एवं शेयर अन्तरण एवेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प birendra.singh@linkintime.co.in पर निवेदन भेजों या कम्पनी रे investors@omaxauto.com पर सम्पर्क रूथपिन करें और अपने ई-मेल पते के पंजीकरण में सरुपता हेतु अपने नाम, फोलियों नं, शेयर प्रमाणात्र की स्केन्द्र प्रति (आगे एवं पीछे), पैन कार्ट तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति दपलस्थ करायें।

कुपया अपने डीपी से सम्पर्कवरों और अपने डीपी डारा परामर्श के अनुसार अपने डीमैंट काते में अप-ई-मेल मता पंजीकृत करायें। इसके अलावा अधिनियम की धारा ०१ के पावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेटी (एलओडीआर विनियमों के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी की 38वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का राजिस्टर और शेवर ट्रांसफर जुक्स बुधवार, 22 दिसंबर, 2021 से मंगलवार, 28 दिसंबर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) रा

मतदान का परिणाम प्रजीपम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर अर्थात 30 दिसंबर, 2021 को या उससे पह कींत्रत किया जाएगा और इस प्रकार घोषित परिणामी को समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.omaxauto.com) पर और एलआईआईपीएल की पैबसाइट (instavote.linkintime.co.in) प

रखा जाएगा। ये परिणाम तुरंत बीएसई लिमिटेड और एनएसई, मुंबई को भी भेजे जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग / एजीएम में वेटिंग के निर्देशों के लिए, शेयरधारक रजीएम नोटिस में निर्देशों का सन्दर्भ ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, शेवस्थास्व https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध 'हेल्प' खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथ E-voting Manual (instavote_shareholder) का संदर्भ ले सकते हैं या ई चीरेंद्र सिंह, टीम सदस्य, ईमेल आईडी birendra.singh@linkintime.co.in संपर्क नंबर: 011-49411000 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

> कते ओमैक्स ऑटीज लिपिटेड तविन्दर सिंह पूर्णकालिक निदेशक

II HDFC माग सचना

तिथि :07.12.2021

हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लि. तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, एस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248001

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 घारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्नागत **हाउसिंग डेवलपमेन्ट** फाइनेन्स कार्पोरेशन लि0 (एचडीएफसी लि0) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसॉ / कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गर्य विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋषी(ओ)/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम झात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियों अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी(ओ)/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को

किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणी(ऑ) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी(ओं) द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावंजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं /अथवा लगाही की तिथि तक उचत मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दशें पर आगे के ब्याज 18 प्रतिशत की दर के साथ यहां नीचे दशांयी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी लि0** को भुगतान कर दें। ऋण की देय ुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा **एवडीएफसी लि0** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों ऋपी / उधारकर्ता (ओं) / कानूनन वारिस (ओं) / कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान रारफेरी एक्ट की धारा 13 की उप—धारा(8) की ओर आकृष्ट

किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

(7)	(বী)	(सी)	(ব্রী)	(ई)
क्र 0 सं0		कुल बकाया धनराशि (रु०)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिमृत परिसम्परितः / अघल सम्पर्तित का विवरण
1	श्री आदेश कुमार शर्मा (ऋणी) गकान नं0. 47, ग्राम थमत, गुजपफरनगर— 251002 श्री अंकित कौशिक (जमानतकर्ता) मकान नं0. 1119, यनेशपुर माग, रामपुर, रूडकी—247687	10,24,812 / — दिनांक 31,10,2021 तक एवं 01,11,2021* से देय ब्याज	12.11.2024	खसरा नं0 229 मिन पर मकान, स्थित साउथ सिदिल लाइन्स गोहनपुरा, गोहम्मदपुर, परमना एवं तहरील, जिला हरिद्वास-247667 क्षेत्रफल: 1172.00 वर्ग फुट्र/ 109.00 वर्ग मी0 चौहद्दी: पू. 14 फुट सड़क, प. अन्य का मकान, उ: विक्रंता की सम्पत्ति, द: सैनी की सम्पत्ति
2	श्री अंकित चौंघरी (ऋणी) श्रीमती अनामिका चौंघरी (सह—ऋणी) अरीहन्त विहार, शान्ति नगर, कुकरा मुजफ्करनगर—251001	6.44.780 /— दिनांक 31.10.2021 तक एवं 01.11.2021* से देय व्याज	12.11.2021	भाग प्लाट नं0 81 पर मकान, खसरा नं0 31, ग्राम कुकड़ा (बाहर हदूद), परगना, तहसील एवं जिला मुजवफर नगर क्षेत्रफल: 533.69 वर्ग फुट./ 49.60 वर्ग भी0 चौहद्दी: पू: 25 फुट सडक, प: प्लाट नं0 82 उ: सम्प्रात्ति जमा देवी, द: सम्प्रात्ति विद्या मित्तल
3	श्री रूपेन्द्र नेगी (ऋणी) श्री शिशुपाल सिंह (सह—ऋणी) रोपा, बगोली, गोर्थरूर-246424 श्री राकेश कुमार शर्मा (जमानतकर्ता) पुत्र गोकुल चन्द्र शर्मा मैगारी, कोली अलीगढ़, अलीगढ़—202001	12,24,513 / — दिनांक 31,10,2021 तक एवं 01,11,2021* से देय व्याज	12.11.2021	खाता गं० 236 पर मकान, खसरा गं० 620 मिन, ग्राम विजयनगर, तहसील गदरपुर, परगना रूद्रपुर जिला उधमसिंह नगर क्षेत्रफल: 899.00 वर्ग फूट./ 83.55 वर्ग मी0 बौहद्दी: पू: सम्पत्ति मानव एवं अन्य, प: सङ्क, जः प्लाट रिक्पा, दः प्लाट रवर्दश
4	श्री विनोद चन्दर पाण्डेय (ऋणी) श्रीमती जया पाण्डेय (सह—ऋणी) द्वारा श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय आदर्श विहार, नीलम कालोनी, दहरिया, निकट गोय माल, हल्ह्वानी, इल्ह्वानी कम कावगोदाम—263139	14,73,332/— दिनांक 31,10,2021 तक एवं 01,11,2021* से देय ब्याज	12.11.2021	खसरा नं0 37 अ मिन पर प्लाट, खाता नं0 66, ग्राम इंसाई नगर नं0 2, परगना भवर छ, तहसील हल्हानी जिला नैनीताल क्षेत्रफल: 2005.69 वर्ग फुट / 186.40 वर्ग गी0 चौडव्दी: पू. मनोज जोशी का प्लाट, प: प्लाट विनोद कुमार पाण्डेय, उ: विझंता की शेष सम्पत्ति, द: 18 फुट संख्क
5	श्री राजीव शुक्ला (ऋणी) श्रीमती ममता शुक्ला (सह—ऋणी) जिला आयुर्वेदा हॉस्पिटल, निकट पेट्रोल पम्प, माली मदाली, सम्पादत—262623	7,09,463/— दिनांक 31,10,2021 तक एवं 01,11,2021* से देय व्याज	12.11.2021	प्लाट नं0 3 का भाग पर मकान, गाटा नं0 164/2/1 मिन, ग्राम चुकटी, तहसील किच्छा, जिला स्थमसिंह नगस्-263148 क्षेत्रफल: 900.00 वर्ग फुट/ 83.64 वर्ग मीठ चौहद्दी: पू: प्लाट जगत सिंह, प: रास्ता 6.096 गीटर, उ: विकेता की सम्पत्ति, द: प्लाट नं0 3 का भाग, कुलदीप सिंह जीना
6	श्रीमती सरिता शर्मा (सह—ऋणी) पत्नी श्री अमित कुमार (अब मृतक) एवं अन्य जाने अन्जाने कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि स्ट० श्री अमित कुमार (अब मृतक) शिवाजी मन्दिर बाली गली, सीतापुर, ज्वालापुर, हरिद्वार—249401	9,57,985 /— दिनांक 31,10,2021 तक एवं 01,11,2021* से देय ब्याज	12.11.2021	आवासीय मकान प्लाट नं० 13, भाग सी, खसरा नं० 362 एम, योगीपुरम, ग्राम जमालपुर कलां, परगना प्रवालापुर, तहरील एवं जिला हरिद्वार—249401 क्षेत्रफलः 510.00 वर्ग फुट / 47.39 वर्ग मी० चौहद्दी: पूरलाट अन्य, पर 25 फुट बीडी सड़क, चः सन्त्रू का मकान, दः अन्य का मकान
7	श्रीमती प्रमावती (सह—ऋणी) पत्नी श्री राघे श्याम (अब मृतक) एवं अन्य जानं अन्जानं कानूनी उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिध स्वत श्री राघे श्याम कृतक)	13,29,100 /— दिनांक 31.10.2021 तक एवं 01.11.2021* से देय ब्याज	12.11.2021	गाटा गं0 160 मिन पर मकान, आनन्द विहार कालोनी, ग्राम फुलसुंगा, तहसील कद्रपुर, जिला उधमरिंह नगर क्षेत्रफल: 600.00 वर्ग फुट / 52.04 वर्ग मी० कवर्ड क्षेत्रफल: 646.6 वर्ग फुट / 60.00 वर्ग मी०

* मुगतान ओर / या वसूली की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की लागू दर से ब्याज, आकरिंगक व्यय, लागत, शुल्क राहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी लि**0 को उपरोक्त भुगतान करने में विकल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत एचडीएफसी लिंo लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में जकत ऋणी(ओं)/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की रूम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर रतिभूत परिसम्पत्तियां ∕ अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।

चौहददीः पुः अमरजीत सिंह चौधरी का भूमि,

दः 20 फुट सड़क

पः विका मकान का शेष भाग, सः अन्य की भूमि,

ड्यमसिंह नगर-263153

आनन्द विहार तीन पानी धाम, रुद्रपूर

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफरी लि0** की पूर्व लिखित सहमति के बिना जक्त ऋणी(ओं) / कानूनन वारिसों / कानूनन प्रतिनिधियों बिकी पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियाँ / अचल सम्पत्तियाँ का अंतरण नहीं कर सकते हैं । यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इर

अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं / अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 08.12.2021 हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए स्थान : देहरादून (प्रा० अधिकारी) पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी लिं0, रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बैकवे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020 CIN: L70100MH1977PLC019918 वेक्साइट : www.hdfc.com

IT sector valuation premium over Sensex at decadal high

BSE IT Index trading at P/E multiple of 34.3x — nearly 29% higher than that of Sensex

KRISHNA KANT Mumbai, 7 December

ndia's leading information technology (IT) services companies, such as Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, and HCL Technologies, among others, are the flavor of the season on D-Street. The IT industry valuation premium over the broader market is now at its highest level in more than a decade as investors continue to accumulate the shares of top IT companies and go underweight on at-risk sectors. such as banking, oil and gas, metals, and even fast-moving consumer goods companies (FMCG).

The BSE IT Index is currently trading at a trailing price-to-earnings (P/E) multiple of 34.3x nearly 29 per cent higher than the benchmark BSE Sensex P/E multiple of 26.6x. In contrast, till six months ago, the IT index was trading at a discount to the benchmark index. This is the first time in five years that the IT index valuations are higher than the benchmark index's. The IT sector had last traded at a premium valuation for nearly two years between the middle of 2013 and 2015. The IT sector premium then over the market averaged around 12.5 per cent. The industry has since seen a

sharp rerating in its valuations in Narnolia Securities. the past one and a half years. The



uncertainty about the future earnings trajectory of other key sectors, such as banks, metals and mining,

rate and higher inflation. Analysts see the premium to stay awhile, given the structural changes to the global economy due to the Covid-19 pandemic.

oil and gas, FMCG, and automotive

due to factors like rise in interest

The IT industry is seeing a tailwind of strong growth as businesses digitise their operations to deal with the prevalent operating environment. This has created strong earnings visibility for the IT sector—something amiss in other leading sectors of the market," says Dhananjay Sinha, managing director (MD) and chief strategist, JM Financial Institutional Equities.

Others, however, find the In comparison, there is a lot of industry's current valuation and

TECH PREMIUM FOR IT COMPANIES The historical trend in valuation



its premium unjustified.

"It's tough to justify the industry's current valuation, given the single-digit growth in dollar terms and the likelihood of a decline in the industry's margins. Last year, the industry's earnings got a legup from a decline in employee and overhead costs due to work from home. This will now reverse, leading to higher operating costs and margins,' Chokkalingam G, founder and MD, Equinomics Research & Advisory.

There has been a sharp rise in employee attrition in the industry in recent quarters, resulting in higher employee costs going forward, hitting margins and earnings growth. This calls for some caution, given the industry's record-high valuation and a weakness in the broader market

Sebi amends delisting rules to make M&A convenient

New Delhi, 7 December

amended rules and

Under the new framework, higher price for delisting with

promoters or acquirers need to disclose their intention to delist the firm through an initial public announcement, according to a notification.

desirous of delisting the

offer price. In case the

Tender Notice No. TRD-KGP-W-2021-22

17, dated 03.12.2021. e-Tender is invi

w the Sr. Divisional Electrical Engine

TRD. Kharagour-721301 for and on beha

of the President of India for the following

works before 15.00 hrs. on the date men

ioned against items and will be opened a

ment of Critical Implantation below 2.3

mtr in yard of Suburban Section over

Kharagpur Division (Phase-I). Tender value : ₹ 2,07,07,370/-. EMD : Nil. Cost

f tender document : ₹ 10,000/-. Comp

letion Period: 12 (Twelve) months. Dat

of Submission: Upto 15.00 hrs. of 28.12

Ireps.gov.in for full details, description

hids online. In no case manual tender fr

this work will be accepted. Note: Pros

ective bidders may regularly visit www

reps.gov.In to participate in all tenders

ation of the tender and submit the

indirect acquisition, the open offer price and indicative price will be notified by the acquirer at the time of making the detailed public statement and in

"The indicative price shall a notification on Monday.

Analysts see ICICI Bank vying to be sector leader

Believe low valuation, start-up collaborations will spur stock

NIKITA VASHISHT New Delhi, 7 December

A ramp-up of digital banking services, sustainable scalability, and inexpensive valuation are all set to power ICICI Bank's stock, driving the bank towards "sector-leadership valuations", believe analysts.

They see up to 47 per cent upside in the stock price over the next year on the back of accelerated business growth, driven by lower customer life cycle costs and higher revenue via cross-selling.

"A focused approach of leveraging existing relationships, structural/cultural changes and digital edge underpin ICICI Bank's sustainable franchise. We take note of its vast wealth of data and deep franchise moats on liabilities to surmise that if the bank executes its strategies well, its success and therefore a sustained re-rating to sector-leadership valuations are possible," said Prakhar Agarwal and Parth Sanghvi, research analysts at Edelweiss Securities.

On Tuesday, the shares surged 3.8 per cent to ₹735 apiece on the BSE. Over the past six months, the stock has mostly performed in line with the markets by rising 9.5 per cent on the BSE as against a 10.3 per cent gain in the S&P BSE Sensex.

Here are the key reasons analysts are bullish on the stock.

Digital growth: After launching the 'iMobile' banking app, the lender has now launched 'i-Lens', a digital lending solution for mortgages and other retail products. Besides, its card partnership with Amazon (nearly 2 million cards issued) has helped it gain market share and has seen higher spendbased fees and lower delinquency.

'ICICI Bank's banktech initiatives such as iMobile, iLens, and fintech partnerships (AmazonPay, etc) are now blossoming into perfected B2C NTB customer acquisition engines, leading to a visible improvement in metrics. This gives the bank a wider customer base to cross-sell to, expanding its



STOCK VERSUS SENSEX

- ICICI Bank 137.4 Dec 7,'21

medium-term growth potential," noted analysts at HDFC Securities.

Partnership with start-ups: The bank aims to collaborate on products with start-ups to drive transformation across verticals such as payments, lending, and risk management. It is working with over 130 fintech firms. Over the past two years, it has invested in approximately 15 start-ups.

Retail credit and collection: ICICI Bank's move to segregate customers into a re-approved loans category or pre-qualified category, customer segmentation and policy formulation along with monitoring it, have helped it predict 80 per cent of bounce back rates.

"Contactless collection currently stands at approximately 30 note by Nomura.

per cent at the early stage of virtual customer service management and 87 per cent of the total payments are being collected digitally. The banks need to continuously evolve and keep offering and scale up the digital capabilities to compete with the fintechs, it will help in gaining the incremental market share," said Bunty Chawla and Melwin Mathew, analysts at IDBI Capital.

Improvement in financial metrics: According to Anand Dama, analyst at Emkay Global Financial Services, ICICI Bank's transformation into a 'Super BankTech' will accelerate business growth/profitability, driven by lower customer lifecycle costs and higher revenue via cross-selling, feeding into sustainably higher return on equity (RoE). In addition, management credibility and stability relative to rivals should provide grounds for continued rerating, he said in a note.

Analysts at Motilal Oswal Financial Services, meanwhile, expect the lender to deliver nearly 25 per cent earnings CAGR (compound annual growth rate) over financial year 2021-22 (FY22)-24E, while return on asset (RoA) and RoE are expected to improve to 2 per cent and 16.6 per cent, respectively, by FY24E.

Valuation: Adjusting for the value of subsidiaries, the valuation of the standalone bank is currently at a 25-30 per cent discount to HDFC Bank, said analysts at Nirmal Bang. "The core bank (excluding

subsidiaries) trades at 2.5x P/B (on current book value) retracing back from key levels between 2.8-3.0x, almost a repetition last seen in FY10 and FY15. We think further re-rating i.e. beyond 2.8-3.0x P/B will be contingent upon delivering steady EPS (earnings per share) growth over several years. Near- to medium-term, though, we think the bank has all the ingredients and firepower to deliver an EPS CAGR of 28 per cent over FY21-24," said a

Court Room No.3

... Plaintiffs

suitable premium over open

pertaining to delisting of equity shares of a company following an open offer as part of efforts to make acquisition transactions for listed companies

If the acquirer is

BSE IT Index's current P/E multi-

ple - more than twice at the end

of March 2020's (15.9x) - is up

nearly 30 per cent, from 26.3x at

uation is also at its highest level in

over a decade. The BSE IT Index's

current P/E multiple of 34.3x is

nearly 70 per cent higher than its

10-year average earnings multiple

of 20.1x. Analysts attribute the val-

uation premium and record-high

valuation to the industry's superior

earnings outlook. "IT companies

are expected to top the revenue

and profit growth charts for the

next two years. This means most

long-term investors are overweight

on the sector," says Shailendra

Kumar, chief investment officer,

The IT industry's current val-

the end of December 2020.

target company, the acquirer must propose a

open offer is for an

include a suitable premium reflecting the price that the acquirer is willing to pay for the delisting offer with full disclosures of the rationale and justification for the indicative price so determined that can also be revised upwards by the acquirer before the start of the tendering period," Sebi said in

Summons to defendant under Section 19(3), of the Recovery of Debt due to the Bank and Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Recovery Tribunal (Procedure

SHRI AKASH GUPTA & OTHERS

DEFENDANTS

Shri.Akas Gupta, Shri Raghuvir Gupta, R/O Flat No. 14, 3rd floor, Building No.6, Gall No.2, IGNOU Road, Neb Sarai, N. Delhi-110068. Mob No. 8826740500, PAN No. Smt. Rashmi Gupta, W/o Shri. Akash Gupta R/o Flat No 14, 3rd floor, Building No.6, Gali

No.2, IGNOU Road, Neb Sarai, N. Delhi-110068, Mob No. 8826740500, PAN No. Shri Abhishek Singh, R/O Flat No.D-906, Prateek Laurel, Sector-120, Noida, U.P.

201301. Mob No. 9910057098, PAN No. CTPPS4420N M/s Morpheous Developers Pvt. Ltd. Through its Director Sh. Prithvi Raj Kasana at H No.1, Shiv Mandirwali Gali, Maupur, Delhi-110053, Adhar No.41852807708

n the above noted application you are required to file reply in paper Book form in Two sets In the above noted application you are required to file reply in paper Book form in two sets along with documents and afficiavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorised agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 06.01.2022 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and solded in the reformation.

Govt. of Jammu & Kashmir

OFFICE OF THE

EXECUTIVE ENGINEER

WATER SUPPLY MASTER PLAN

DIVISION SRINAGAR

Fax-Phone: 0194-2401904

E-mail ID: xenwsmp@gmail.com

CANCELLATION NOTICE

Due to poor response for the work namely

"Design (Including Geo-Technical Analysis/

Soil Investigation), construction, successful

testing and commissioning including trial

run for 06 months Of 5 MGD (22.7 MLD)

rapid sand W.T.P at Rangil" put to tenders

vide e-NIT No. 18/WSMP of 10/2021 dated

01-10-2021 issued under endorsement

No:4458-91 Dated 01-10-2021 is hereby

Water Supply Master Plan Division

Executive Engineer

cancelled.

Date: 04/12/2021

No: WSMP/CC/7097-7102

Registrar Debts Recovery Tribunal

Business Standard

DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida. Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehm House 4 Rabado Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor: Shailesh Dobhal

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in h. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201

For Subscription and Circulation

enquiries please contact: Head-Customer Relations Business Standard Private Limited H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli,

Mumbai - 400013 E-mail: subs_bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575

DISCLAIMER News reports and featur articles in Business Standard seek to presen an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the out to be different owing to circumstance growledge, Business Standard does no take any responsibility for investment o business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.

Business Standard does not associate itsel with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.

Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd Any printing, publication, reproduction ransmission or redissemination of the ontents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consen of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and

No Air Surcharge

Regd. & Corporate Office: Plot no. B-26, Institutional Area, Sector-32, Gurugram, Haryana-12200

omaxaulo.com, Phone: +91-124-4343000, Fax: +91-124-2580018 NOTICE OF 38" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

This is in continuation to our earlier communication dated 1st December, 2021, whereby the nis is in communication to our earnier communication dated 1 December, 2021, whereby the embers of Omax Autos Limitled ("the Company") were informed that in compliance with the rovisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEI isting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR] egulations"] read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated Apri 8, 2020; April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by Ministry Corporate Affairs ("MCA Circulers"), the Board of Directors of the Company has decided convene the 38" AGM of the Company on Tuesday, 28" December, 2021 at 10:00 AM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility, without the physical esence of the members at a common venue, to transact the businesses as set out in the Notice

2021 along with the login details for joining the 38th AGM through VC/ OAVM facility including e voting has been completed on 6" December, 2021 through e-mail to all those members whose e mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or will their respective Depository Participanta (DPs) in accordance with the MCA and SEBI Circulars and the same are also available on the Company's website www.omaxauto.com and sto exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of Link Intin ndia Private Limited ("LIIPL") instavote,linkintime.co.in

The notice of 38th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 3^e

n compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard -2 Issued by the Institute of Company s of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast the vote electronically through remote e-voting and e-voting services, provided by LIIPL on a ons set forth in the Notice of the 38" AGM.

The remote e-voting shall commence on Saturday, 25° December, 2021 (09:00 AM) IST and end on Monday, 27° December, 2021 (05:00 PM) IST. During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by the LIIPL for voting. ne remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

The Members who have casted their votes by remote e-voting may also join the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available Once the Members cast vote on a resolution, the Members shall not be allowed to change

obsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the The Board of Directors of the Company has appointed Dr. S. Chandrasekaran, Senior Partner of failing him Mr. Rupesh Agarwal, Managing Partner or failing him Mr. Shashikant Tiwari, Partner of les as the Scrutinizer to scrutinize the

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity Shares held by them in the pa up equity Share capital of the Company as on Tuesday, 21" December, 2021 ("Cut-off date"). erson, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Benefic ntained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the

AGM, avail the remote e-voling and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be Member as on cut-off date should treat his Notice for information purpose only. Any person, who acquire Shares and become member of the Company after the date of electro dispatch of the Notice of 38" AGM and holding Shares as on the cut-off date, may obtain the Logi ID and pessword by following the instructions as mentioned in the Notice of 38" AGM or sending ne.co.in. However, if he/she is already regis oling, then he/she can use his/her existing user ID and password to cast their vote.

f you have not registered your e-mail address with the Company/ DP, you may please follow the low instructions for obtaining the login details for e-voting:

Physical Please send a request to Link Intime India Private Limited, Registrar and Sha Transfer Agent to the Company at birendra.singh@linkintime.co.in or contact the Company at investors@omaxauto.com providing their name, folio no, scanne copy of share certificates (Front and Back), self-attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card in support for registering their e-mail addresses

Please contact your DPs and register your e-mail address in your demat account as per the process advised by your Dps.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder an Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 22nd December, 2021 to Tuesday, 28 December, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 38 AGM of the Company. The result of voting will be declared within two working days from the conclusion of the AGM i.e.

on or before 30" December, 2021 and results so declared along with the consolidated scrutinizer report will be placed on the Company's website (www.omaxauto.com) and LIIPL's websit vote.linkintime.co.in). The results shall also be immediately forwarded to the BSE Limit or electronic voting instructions/voting at AGM through VC/OAVM, shareholders may refer the

For electronic voting instructions/voung at Nami through Varonivin, sinteriorders may refer the instructions in the AGM Notice and in case of any queryl grievance connected with electronic voting, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manua (instavote_shareholder) for shareholders available at "help" section on https://instavote.finkintime.co.in or contact Mr. Birendra Singh, Team member, Email ID rendra.singh@linkintime.co.in. Contact Number: 011-49411000.

Place: Gurugram Dated: 07.12.2021

Tavinder Single

IN THE CITY CIVIL COURT IN DINDOSHI AT BOMBAY Plaint lodged on: 28/03/2019 Plaint admitted on: 13/03/2020

SUMMONS for Settlement of Issue In a Suit Relating to Commercial Dispute Under section 6 of the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Court Act, 2015 Order V. r.1, of the Code of Civil Procedure, 1908. Multi Commodity Exchange of India Ltd., Company incorporated under the provisions Of the Companies Act 1956 having its Registered Office at Exchange

Square, Suren Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093 Through its Authorized Representative Mr. Ashok Mahapatra (Asst. Vice President)

1. BBJ Trend Traders Pvt Ltd. a company, at

10, Narinder Bhawan, 448 Ring Road, Azadpur, Delhi - 110033 2. Pawan Kumar Agarwal having his address at Narinder Bhawan, 448 Ring Road, Azadpur, Delhi 110033

3. Rakesh Gupta having his address at B-8, 232, 1st floor, Sector 5, Rohini, Delhi - 110085

1. BBJ Trend Traders Pvt. Ltd. 2. Pawan Kumar Agarwal

3. Rakesh Gupta

WHEREAS the above named Plaintiff/shave/has instituted a suit relating to a commercial dispute against you and you are hereby summoned to file a Written Statement within 30 days of the service of the present summons and in case you fall to file the Written Statement within the said period of 30 days, as shall be allowed to file the Written Statement on such other day, as may be specified by the Court, for reasons to be recorded in writing and on payment of such costs as the Court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons. On expiry of one hundred and twenty days from the date of service of summons, you shall forfeit the right to file the Written Statement and the Court shall not allow the Written Statement to be taken on

The Plaintiff therefore prays:

a. that the Defendant Nos. 1 to 3 be ordered and decreed to pay jointly and severally to the Plaintiff
the sum of Rs.14,50,276.70/- as per Particulars of Claim (Exhibit K annexed hereto) with further
interest @ 18% p.a. from the date of filing of the suit till actual payment and/or realization.

c. such other and further reliefs as this Hon'ble Court may deem fit and proper.

You are required to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such question, on the 17/12/2022 at 11.00 O'clock to answer the claim, and further you are hereby to0 produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defense or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support or you defense or claim for set-off, or counter-claim you shall enter such documents in list to be annexed to the Written Statement.

Given under my hand and the seal of this Hon'ble Court. Sealer

This 9 day of Sep 2021

For Registrar City Civil Court. Dindoshi, Gr. Bombay

Sealer

M/ s. Consulta Juris Advocate for Plaintiff. A-106 Royal Sands, Shastri Nagar,

Near Bhakti Vedant School, Andheri West, Mumbai - 400053